Shashwat Furnishing Solutions Limited

CIN: L20299RJ2021PLC073899



Date: September 07, 2024

To,
BSE Limited
Listing Department
P.J. Towers, 1st Floor,
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 543519; Security ID: SFSL

Sub: Submission of Copy of Newspaper Publication of Notice of 04TH Annual General Meeting.

Dear Sir/Ma'am.,

Pursuant to the regulations 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the newspaper publication for Notice of 04TH Annual General Meeting including details of dispatch of Annual Reports, Book Closure and e-voting details published in Financial Express (English language) having nationwide circulation and in Business Remedies (Regional Language) having regional circulation.

You are requested to kindly take the same on record and inform all those concerned accordingly.

Thanking you,
Yours Faithfully,
Shashwat Furnishing Solutions Limited

HITESH KARNAWAT Managing Director DIN: 09097273



(A Government of India Enterprise). CIN: L25111UP1972G0I003599

1st Floor of 3/481, Vikalp Khand Gomti Nagar Lucknow UP 226010, India Telephone No. 0522-3119593
E-mail: csscootersindia@gmail.com, Website: www.scootersindialimited.com

NOTICE FOR 52" ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, the 27th day of September 2024 at 12:30 PM held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means("OAV") to transact the businesses set out in the notice dated September 04,2024 in compliance with the General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, No.20/2020 dated May 5, 2020, No.02/2021 dated January 13, 2021, No.21/2021 dated December 14, 2021, No.02/2022 dated May 5,2022, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as ("MCA Circulars") and applicable provisions of Companies Act, 2013.

Notice of the meeting setting out the resolutions proposed to be transacted thereat alongwith the Audited financial statements for the year ended on March 31, 2024, Auditors' Report and Directors' Report as of that date, has been sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.scootersindialtimited.com and on the website of the Company's Registrar and Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited ("Skyline"), at https://skylinerta.com respectively. The detailed instructions to the members for registration of their email address, manner of participating in the 52nd AGM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAV") including the manner of e-voting is set out in the

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing remote e-voting facility to its members to exercise their right to vote on there solutions proposed to be transacted at the 52nd Annual General Meeting. The Company has arranged a remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") https://www.evotingindia.com/. Members may use their login Credentials provided in the notice of AGM for casting their votes electronically.

A member whose name appears in the register of members as of cut-off date i.e. September 20, 2024, shall be entitled to avail of the facility of remote evoting as well as voting at the general meeting. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares on September 20, 2024, if already registered with through Skyline Financial Services Private Limited ("Skyline"), can use their existing user ID and password otherwise follow the detailed procedure mentioned in Notice of Meeting available at Company's website www.scootersindialimited.com or may obtain the login ID and password by submission of online request at http://www.skylinerta.com/EmailReg.php

or by sending a request at compliances@skylinerta.com latest by 5:00 p.m. on September 26, 2024. The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, September 24, 2024, at 09:00 AM and ends on Friday, September 26, 2024, at 5:00 P.M. The remote e-voting will be disabled by thee-voting agency (CDSL) after the said date and time.

The Company has appointed Mr. Amit Gupta, Practising Company Secretary, Lucknow as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and

Incase shareholders/ members have any queries regarding e-voting they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-Voting manual available at https://www.evotingindia.com/, under Help section or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or at the Company Secretary at csscootersindia@gmail.com Tel: +91 0522-3178490.

It is hereby informed that pursuant to the requirement of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members is not closed for the year.

> By the order of the Board Scooters India Limited Sd/-(Navin Kaul)

Chairman & Managing Director

DIN - 10684669

Date: 05.09.2024 Place: New Delhi

MPDL LIMITED

Regd. Office: 11/7, Mathura Road, Sector 37, Faridabad HR 121003 Corp. Office: Unit No. 12, GF, Magnum Tower-1 Sector - 58, Golf Course Extn. Gurugram-122011 HR Phone: 0124- 4222434-35; Email: isc_mpdl@mpdl.co.in Website: www.mpdl.co.in; CIN: L70102HR2002PLC097001

NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (hereinafter called as "AGM") of MPDL Limited ("the Company") will be held on Friday, September 27, 2024 at 03:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at the AGM to transact the business as set out in the AGM Notice dated August 13, 2024. The Company has sent the Notice of the AGM and Annual Report including Annual Financial Statements for the Financial Year 2023-24, through electronic mode to the Shareholders whose e-mail address are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent or with the Depository Participants in accordance with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circulars No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India (collectively "SEBI Circulars"). The Copy of the Notice of the AGM and Annual Report for the FY 2023-2024 is also available on the Company's website www.mpdl.co.in, website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting@nsdl.com In case shareholders request for the same, physical copy of the Annual Report will be sent to them. The Dispatch of the Notice of the AGM through emails has completed on Thursday, September 05, 2024.

Members are provided with the facility to attend the AGM through electronic platform provided by NSDL. Members are request to visit www.evoting@nsdl.com and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credential provided to them. Instruction for Remote E-voting and E-voting:

- Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, & Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations"), the members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM using electronic voting system ("Remote e-voting") provided by NSDL. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on Friday, September 20, 2024 ("Cut-off date") can cast their votes via remote e-voting facility of NSDL through www.evoting@nsdl.com A person whose name is recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owner maintained by Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The voting rights of the Members shall be in proportion of the paid up value of their shares in the total Voting capital of the Company as on Cut-Off date.
- The remote e-voting period will commence from Tuesday, September 24, 2024 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 at 5.00 P.M (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.
- Information and instructions comprising manner of voting, including remote e-voting by members holding shares in dematerialized form, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM as well as in the email sent the members by NSDL
- Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report through electronic means and before the Cut-off date may obtain the User ID and password by sending a request to the Company at isc_mpdl@mpdl.co.in or to NSDL at
- Members attending the AGM through VC/OAVM but who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM through VC/OAVM, however they shall not be eligible for e-voting at the AGM.
- 5. The Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.mpdl.co.in. Please refer the 'e-voting user manual' for members available to the downloads section of the website of NSDL i.e. www.evoting@nsdl.com. Any member who have any query/grievances connected with the e-voting can contact Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com or call on 022-48867000 and 022-24997000.

For permanent registration/updation of the email addresses, members may send the request with the relevant Depository Participant in case of shares held in electronic form with the company's Registrar & Share Transfer Agent Limited-M/s MCS Share Transfer Agent Limited in case shares are held in physical form. Members holding shares in physical form may send an email request at the email id admin@mcsregistrars.com along with the scanned copy of Form ISR-1 and self attested copy of PAN Card and Aadhaar Card, etc. Further also send the original copy to M/s MCS Share Transfer Agent Limited at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020. The said Form ISR-1 is also available on the website of the Company at www.mpdl.co.in

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Friday, September 27,

2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Further, the Shareholders are also requested to carefully read the Notes set out in the AGM Notice for more details on the process to be

SHARAT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L05005AP1990PLC011276

Regd Office: Venkannapalem Village, T.P.Gudur Mandal, Nellore District, AP Pin 524002

Mob: 88976 28787, Email: cs@sharatindustries.com, Website: www.sharatindustries.com

NOTICE REGARDING THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO

CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS AND INFORMATION ON E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of Sharat Industries Limited will be held on

Monday, 30th September 2024 at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made

thereunder and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. MCA with

latest circular being 09/2023 dated 25th September 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167

dated 23rd October 2023 issued by SEBI. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been

Notice convening the 34th AGM and the Annual Report containing Board's Report, Auditor's Report, Audited standalone

and consolidated financial statements for the financial year 2023-24, has been sent on 06th September 2024, through

electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositories as

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has engaged the

services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility (remote e-voting and e-voting

1. The cut-off date to determine eligible members to cast votes by e-voting is Friday, 20th September 2024. The remote e-

voting shall be open for 03 (Three) days commencing from Friday, 27th September 2024 (9.00 A.M. IST) and will end on

2. Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting, but shall not be

allowed to vote again at the AGM. In case, if a member, cast his vote in remote e-voting as well as through e-voting at the

3. Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date

i.e. 20th September 2024 are requested to refer the e-voting instructions in the Notice. However, if already registered with

4. The notice containing instruction for remote e-voting and e-voting at the AGM is enclosed with the Annual Report which is

available on the website of the Company www.sharatindustries.com and e-voting website of CDSL

5. The Company has appointed Mr. C. Prabhakar, Partner of M/s. BP & Associates (Entity ID:83104) Practicing

6. The results declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website and simultaneously

7. For any queries/grievances or issues regarding attending the AGM and remote e-voting, please refer to Frequently

Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or reach to Mr.

Rakesh Dalvi (022-23058542) of Central Depository Services (India) Limited Helpdesk:1800225533, E-mail:

helpdesk.evoting@cdslindia.com or to Cameo Corporate Services Limited (RTA) (E-mail: investor@cameoindia.com).

Company Secretaries, Chennai as scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

CDSL for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote.

will be communicated to BSE Limited, not later than 2 working days from the conclusion of AGM.

www.evotingindia.com and the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the 34th AGM dated 22nd July 2024.

Place : Gurugram Date: 07.09.2024

followed for joining the AGM and manner of casting vote, etc.

dispensed with vide relevant circulars.

at the AGM). The members are also informed that:

Sunday, 29th September 2024 at (5.00 P.M. IST).

AGM, the vote cast through remote e-voting only shall be considered.

on 30th August 2024.

Date: 06th September 2024

Place: Chennai

For MPDL LIMITED Bhumika Chadha Company Secretary

ANUH PHARMA LIMITED CIN: L24230MH1960PLC011586

Regd. Office: 3-A Shivsagar Estate, North Wing, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018 Phone: +91 22 6622 7575; Fax: +91 22 6622 7600; Email; anuh@sk1932.com; Website: www.anuhpharma.com

CORRIGENDUM TO ANNUAL REPORT OF 64th ANNUAL GENERAL MEETING The Corrigendum is being issued in connection with the 64th Annual Report of the Company for the FY 2023-24. On Page 84, 85, 87, 88 and 131: Below the signature of Statutory Auditor Mr. Dilip J. Thakkar, Partner of Jayantilal Thakkar & Co. holding Membership No.: (116279) should be read as (005369) were swapped due to clerical and typographical errors which has now been corrected.

There are no other corrections in the 64th Annual Report filed with the Stock Exchanges. on 30" July 2024.

The Corrigendum is available on the Company's website www.anuhpharma.com. BSE's Website www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

> For and on behalf of the Board of Directors of Anuh Pharma Limited Sd/-

Date: 07/09/2024 Place: Mumbai

Manan Vadhan Company Secretary & Compliance Officer

ELPRO INTERNATIONAL LIMITED

CIN: 151505MH1962PLC012425 Registered Office: 17th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021 **Tel.**: +91 22 4029 9000; **Fax:** +91 22 2202 7995 Email: ir@elpro.co.in Website: www.elpro.co.in

NOTICE OF 61st ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION OF BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING Notice is hereby given that that the Sixty-First (61st) Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on

Monday, September 30, 2024 at 09:00 a.m. (IST) at Prince Hall, National Sports Club of India, Lala Lajpatrai Marg, Worli, Mumbai -

400018 to transact the businesses, as set out in the Notice of the 61st AGM. In compliance of Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in terms of the General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020; No. 17/2020 dated April 13, 2020; No. 20/2020 dated May 5, 2020; No. 02/2021 dated January 13, 2021; No. 19/2021 dated December 8, 2021; No. 2/2022 dated May 5, 2022; No. 10/2022 dated December 28, 2022 and No. 09/20223 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and read with SEBI Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020; No. SEBI/ HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021; No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022; No. SEBI/HO/

CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and No. SEBI/HO/ CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 (collectively

referred as the "SEBI Circulars"), the Notice of 61st AGM of the Company along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 are

The Members whose email addresses are not registered with the Company / Depositories, to receive the Notice of 61st AGM along with Annual Report for the Financial Year 2023-24, may send their request at ir@elpro.co.in.

sent by electronic mode only to those Members who have registered their email addresses with the Company / Depositories.

The Notice of 61st AGM along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's website at www.elpro.co.in. The same is also available on the website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with applicable rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 61st AGM of the Company.

In compliance with Section 108 of the Act read with applicable rules made thereunder, as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facilities of remote e-voting before the 61st AGM in respect of the businesses to be transacted at the 61st AGM and for this purpose, the Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating remote e-voting process.

All the Members are hereby informed that:

- the remote e-voting shall commence on Friday, September 27, 2024 (at 9:00 a.m. IST) and ends on Sunday, September 29, 2024 (5:00 p.m. IST);
- the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. Members who have cast their vote by remote ing may also attend but shall not be allowed to vote again at the 61st AGM.
- iii. the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting during the 61st AGM is Monday, September 23, 2024;
- iv. A Non-Individual Shareholder or Shareholder holding securities in physical mode, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after Notice of the 61st AGM is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, September 23, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com or to the Company at

ir@elpro.co.in or Company's Registrar and Share Transfer Agents at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. However, if the Member is

- already registered with NSDL for remote e-Voting then he / she can use his / her existing User ID and password for casting the vote. Individual shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., Monday, September 23, 2024 may follow the steps mentioned in the Notice of the 61st AGM under 'Procedure for Remote e-voting Voting at the AGM'.
- vi. The facility for voting through Poll shall be made available at the Meeting and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to vote at the Meeting through Poll.
- vii. The Board of Directors of the Company has appointed Mrs. Jayshree A. Lalpuria, Proprietor of M/s. Jayshree A. Lalpuria & Co., Practicing Company Secretaries (Certificate of Practice No.: 7109) as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process and voting at the AGM through Poll in a fair and transparent manner.
- iii. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company at www.elpro.co.in and on NSDL's website at www.evoting.nsdl.com and the same shall be submitted to BSE Limited, where the shares of the Company are listed and can be accessed at www.bseindia.com:
- x. In case of queries relating to remote e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on contact number 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President, NSDL or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at
- In case of any further information / queries on the subject matter, please contact Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (East), Mumbai - 400083 (Phone: 022-49186270; Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in).

For Elpro International Limited

Deepak Kumar Ajmera

Chief Financial Officer

Mumbai, September 6, 2024



SG MART LIMITED

(Formerly known as Kintech Renewables Limited) CIN: L46102DL1985PLC426661

Regd. Office: H. No. 37, Ground Floor, Hargovind Enclave Vikas Marg, Delhi-110092 Corporate Office: A-127, Sector-136, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201305 Tel: 91-11-44457164 Website: www.sgmart.co.in Email: compliance@sgmart.co.in NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION TO MEMBERS

This is in continuation to our earlier communication given on September 4, 2024, whereby Members of SG Mar Limited ("the Company") were informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] read with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circulars No. 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/202210/2022, 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021

May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023 4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circulars), it was decided to convene the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the Company on Saturday, September 28, 2024 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the Notice of 39th AGM. The deemed venue of the meeting shall be the registered office of the Company.

The process of sending the Notice of 39th AGM and Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2024 along with login details for joining the AGM through VC facility including e-voting has been completed on Thursday, September 5, 2024 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants "DP") in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, and the same are also available on Company's website (www.sgmart.co.in). Stock Exchanges' website (www.bseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com). The physical copy of the notice along with Integrated Annual Report shall be made available to the Member(s) who may request the same. in compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration)

Rules, 2014. Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2) and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by NSDL on all resolutions set forth in the Notice of the 39th AGM.

The remote e-voting shall commence on Wednesday, September 25, 2024 (9.00 A.M.) and shall end on Friday, September 27, 2024 (5.00 P.M.). During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024 ("Cut-off date") may cast their votes electronically, Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting. All the members are informed that

- The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
- 3. Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the date of electronic dispatch of the Notice of 39th AGM and holding shares as on the Cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions, as mentioned in the Notice of the 39th AGM or sending a request to evoting@nsdi.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote; and
- Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

I you have not registered your e-mail address with the Company/DP, you may please follow the below instructions or obtaining login details for e-voting:

Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self attested scanned copy of PAN card, self attested scanned copy of Aadhar Card or any other document as proof of address by email to Company: compliance@sgmart.co.in or to RTA: mcsltdbaroda@gmail.com; mcsstaahmd@gmail.com.

Please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Holding Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self attested scanned copy of Aadhar Card or any other document as proof of address to Company: compliance@sgmart.co.in or to RTA: mcsltdbaroda@gmail.com; mcsstaahmd@gmail.com.

Shri Jatin Gupta, Practicing Company Secretary (Membership No.: FCS 5651: COP No. 5236), has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date i.e. Saturday, September 21, 2024.

30, 2024 and results so declared along with the consolidated Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website (www.sgmart.co.in) and NSDL's website (www.evoting.nsdl.com) and simultaneously communicated to the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, where the Company's shares are listed. If you have any queries or issues regarding attending AGM or e-Voting from the e-Voting System, you may refer the

The result of voting will be declared within 2 working days from the conclusion of AGM i.e., on or before September

Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or call on. 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

Members holding shares in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the details in their demat account, as per the process advised by their Depository Participant. Members holding shares in physical form who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed form ISR - 1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s MCS Share Transfer Agent Limited. Members are also recommended to complete their nomination in the prescribed form SH-13. Members can access the relevant forms on the Company Website a https://sgmart.co.in/investor-relations/.

> For and on behalf of SG Mart Limited

Place: Noida Date: September 6, 2024

Sachin Kumar Company Secretary

INTERTEC TECHNOLOGIES LIMITED

Regd Office: No.28, Shankar Mutt Road, Bangalore – 560 004

CIN NO. U85110KA1989PLC010456 NOTICE OF 35th AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday 28th September, 2024 at 11:00 AM at No.28, Shankar Mutt Road, Bengaluru - 560004, to transact the business mentioned in detail in the Notice of AGM.

- 1. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (collectively referred to as 'Circulars"), electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 is dispatched to those whose email addresses are registered with the Company's Registrar Share transfer agent or CDSL or NSDL (depositaries). The Notice and Annual Report are also uploaded to the Company's website www.intertec1.com, and the website of the Stock Exchange –MSEI Limited at www.msei.in.
- The Company has made arrangements with KFIN Technologies Ltd. for providing 'remote e-voting' facility. Mr. Sunil Desur, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for conducting the Remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- Members holding shares in physical or dematerialized form who have not registered or updated their email addresses, bank details with the Company are requested to register or update the same by writing to RTA of the Company, KFIN Technologies Ltd. Email id: evoting@kfin.com with details of Folio no. and attaching "self-attested' copy of PAN card.
- The detailed procedure for eVoting is provided in the Notice of AGM. The remote e-voting shall commence on 25th Sept, 2024 (9.00 a.m.) and ends on 27th Sept. 2024 (5.00 p.m.). During this period the Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date 20th Sept, 2024 may cast their vote by remote e-voting. Eligible Members who have not cast their vote through eVoting may cast their vote through Ballot paper at the AGM venue during the AGM.
- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday 23rd Sept 2024, to Saturday 30th Sep, 2024.

Date: 6th Sept 2024 Place: Bengaluru

For Intertec Technologies Ltd. **Ravi Chandar TS, Managing Director**

MRP AGRO LIMITED

CIN: U15100MP2018PLC045542 Regd. Office: House No.100, First Floor, Ward No.23, Infront of Thane Ajak,

Civil Line Road, Tikamgarh-472001, Madhya Pradesh, India **Email:** info@mrpagro.com • **Tel:** +91-7683-240342; +91-9893142537 Website: www.mrpagro.com

NOTICE OF 06[™] ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the Sixth Annual General Meeting (06th AGM) of the Members of MRP Agro Limited ("the Company") will be held on Monday, 30th day of September 2024 at 11:00 A.M. at House No. 100, First Floor, Ward No.23, Infront of Thane Ajak Civil Line Road, Tikamgarh- 472001, Madhya Pradesh, India to transact the Business as set out in notice of 06th AGM.

The Notice of the 06th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 been sent through electronic mode to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company's RTN Depository Participant(s), unless any Member has requested for a physical copy of the same. The aforesaid documents are also available and can be downloaded from the Company's website www.mrpagro.com, Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") website www.evotingindia.com and website of Stock Exchange www.bseindia.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Members are provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the 06th AGM using remote evoting facility (to vote electronically from place other than the venue of the AGM) as provided by CDSL. The remote e-voting period will commence on 27th September 2024 from 9:00 A.M.

(IST) and will end on 29th September 2024 at 5:00 P.M. (IST). During this period. Members may cast their vote electronically. The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter. The voting rights of the shareholders shall be in the proportion to his/her shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 23rd September 2024. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 23rd September 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who

acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is send through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com or Issuer / RTA. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the notice of the meeting which is available on Company's website and CDSL website. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means,

please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact toll free no. 1800 21 09911 or send a request to Mr. Rakesh Dalvi at helpdesk.evoting@cdslindia.com By the order of Board of Directors

For MRP Agro Limited

Date: 06.09.2024 **Gunjan Gupta** Place: Tikamgarh, Madhya Pradesh Company Secretary & Compliance Officer

SHASHWAT FURNISHING SOLUTIONS LIMITED CIN: U20299RJ2021PLC073899 Regd. Office: 121, Mahaveer Nagar, Jain Colony, Jodhpur - 342001, Rajasthan, India

E-mail : cs@handicraftsvillage.com, **Website:** www.handicraftsvillage.com, **Tel. No.:** + 91-9001269000 NOTICE OF 04TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that,

- 1. The 04TH Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, September 30, 2024, at 11:00 A.M. at factory premises situated at Plot No. 120, 121, 122, Khasra No. 277/1 Salawas Industrial Area. Jodhpur, Rajasthan-342013, India to transact the business as set out in the Notice of the AGM.
- The Notice of AGM and Annual Report for the Fiscal 2024 have been emailed on September 05, 2024, to those members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.handicraftsvillage.com.
- Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing facility to its member holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off-date September 20, 2024, for casting their vote on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that: The business as set forth in the Notice of the O4th AGM may be transacted
- through voting by electronic means:
- The remote e-voting shall commence on September 27, 2024 (9.00 a.m. IST); iii. The remote e-voting shall end on September 29, 2024 (5.00 p.m. IST); iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at
- the AGM is September 20, 2024; v. Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e September 20, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at
- evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NDSL for evoting, then the existing user ID and password/PIN can be utilized for casting the Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5.00 p.m. IST on September 29, 2024, and once the vote on a
- resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and c) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 20, 2024, only, shall be entitled to avail the facility of remote
- vii. The Notice of AGM and Annual Report for the Fiscal 2024 is available on the Company's website at www.handicraftsvillage.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com
- viii. Members who have not received the Notice and Annual Report for the Fiscal 2024 may download the same from the aforesaid website.
- ix. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com
- The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days will be inclusive).

For Shashwat Furnishing Solutions Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Ahmedabad







financialexp.epapr.in

(By order of the Board)

M. Balamurugan

M. No: A66115

For SHARAT INDUSTRIES LIMITED

Company Secretary & Compliance Officer

Date: September 06, 2024

Place: Jodhpur

Monika Gandhi

बिजनेस रेमेडीज

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ की रणनीतिक साझेदारी

यह साझेदारी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में एयू एसएफबी के विविध ग्राहक आधार को विश्वसनीय, स्थिर और किफायती बीमा समाधानों तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाती है।



बिजनेस रेमेडीज/मुंबई। भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) और सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी जनरल इंश्योरेंस (सामान्य बीमा) कंपनी युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (यूआईआईसी) ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इसका मकसद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा और इससे जुड़े समाधानों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करना है। इसमें वाहन बीमा, व्यक्ति गत दुर्घटना बीमा, फसल बीमा, प्रॉपर्टी बीमा, दुकानदार बीमा, साइबर सुरक्षा बीमा और अन्य बहुत कुछ

कैशफ्री पेमेंट्स की सिक्योर आईडी ने

कारोबारों के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का

100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा किया पार

बिजनेस रेमेडीज। आज की डिजिटल दुनिया में, ऑनलाइन लेन-देन तेज़ी से

बढ़ रहे हैं, जो व्यवसायों और उनके ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर नई

चुनौतियां भी सामने लेकर आ रहे हैं। सुरक्षित और प्रामाणिक लेन-देन

सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और फ्रॉड प्रेवेंशन एक

मज़ब्रत व्यावसायिक रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस चुनौती का सामना

करने के लिए, कैशफ्री पेमेंट्स ने हाल ही में सिक्योर आईडी लॉन्च किया है।

यह एक एंड-टू-एंड सत्यापन प्लेटफ़ॉर्म है जो व्यवसायों को अनुपालन प्रवाह

50 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी को रोककर महत्वपूर्ण नतीजे

हासिल किए हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म व्यवसायों को वित्तीय नुकसान और उनकी

प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान से बचाने में अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहा

है। कैशफ्री पेमेंट्स के सीईओ और को-फाउंडर आकाश सिन्हा ने कहा,

'ऑनलाइन संचालन करने वाले व्यवसायों को फॉड के कारण काफ़ी राजस्व

हानि और धीमी वृद्धि का सामना करना पड रहा है। फ्रॉड न केवल वित्त, बल्कि

ग्राहक विश्वास और जुड़ाव को भी प्रभावित करता है। अनुपालन और जोखिम

प्रबंधन के लिए प्रभावी उपाय दरअसल विश्वास बहाल करने और सुरक्षित

डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।' सिक्योर आईडी बड़े

निगमों से लेकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) तक सभी

आकार के व्यवसायों को पूरा करता है। आकाश आगे कहते हैं, 'प्लेटफ़ॉर्म

का उपयोग में आसान इंटरफ़ेस और अपने अनुकूल बनाने योग्य सुविधाएँ इसे व्यवसायों के लिए आसान बनाती हैं और इसके लिए बहुत अधिक तकनीकी

कौशल की जरूरत भी नहीं होती।'

उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि

छोटे और मध्यम आकार के

व्यवसायों के लिए. जो अक्सर

सीमित संसाधनों और बजट का

सामना करते हैं. सिक्योर आईडी

आवश्यकताओं के लिए एक लागत

प्रभावी समाधान प्रदान करता है।

मैन्युअल सत्यापन प्रक्रिया की

आवश्यकता को समाप्त करके, ये

व्यवसाय अपने परिचालन व्यय को

सकते हैं। इसके अतिरिक्त,

सिक्योर आईडी उन्नत सुरक्षा उपायों

को नियोजित करके एसएमई को

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसे

डेटा सुरक्षा विनियमों का अनुपालन

करने में मदद करता है। सिक्योर

आईडी व्यवसायों को उनके

सुव्यवस्थित करने और धोखाधड़ी

के जोखिमों को कुशलतापूर्वक

कम करने में सक्षम बनाता है।

आकाश बताते हैं, 'पहचान

सत्यापन कार्यों को स्वचालित

करके, व्यवसाय परिचालन

लागत को कम कर सकते हैं और

डिजिलॉकर सहित विभिन्न डेटा

एग्रीगेटर के साथ प्लेटफ़ॉर्म का

एकीकरण व्यापक डेटा कवरेज

और सटीक सत्यापन परिणाम

सुनिश्चित करता है।' आज के

डिजिटल परिबृश्य में, जहाँ

धोखेबाज़ लगातार अपनी रणनीति

और तरीकों को बढ़ा रहे हैं।

प्रोसेस

वेरिफिकेशन

सभी

सिक्योर आईडी ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा सत्यापन पूरे करके और

बनाने और पहचान धोखाधड़ी को रोकने में सक्षम बनाता है।

Cashfree

Payments

शामिल है।एयू एसएफबी और यूआईआईसी ने औपचारिक रूप से रणनीतिक गठबंधन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह उनके सहयोगी सफर में मील का महत्वपूर्ण पत्थर है। समझौतों पर एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं डिप्टी सीईओ उत्तम टिबरेवाल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भूपेश सुशील राहुल ने हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी एयू एसएफबी के 'फॉरएवर बैंक' के सपने को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। इसका उद्देश्य पुरे देश में व्यापक स्तर पर वितीय समाधान प्रदान करना है।

बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई

लॉन्च के पहले वर्ष में 3500 करोड़ रुपये एयूएम के पार

FINSERV



फंड है। फंड ने अपने उद्घाटन वर्ष

मेंफंड ने अपने शुरुआती वर्ष में

नियमित योजना के तहत

41.30%* और प्रत्यक्ष योजना के

तहत 43.43%* का रिटर्न देते

फंड के एक साल पूरे होने पर,

बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ

गणेश मोहन ने कहा, 'हम अपने

प्रमुख इक्विटी फंड की पहली

वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए

उत्साहित हैं। यहविकास मेगाट्रेंड

निवेश के विषय के तहत रणनीतिक

नीलकंठ रॉक-मिनरल्स लिमिटेड

CIN: L14219RJ1988PLC062162

पंजीकृत कार्यालयः प्लैट नं. 606, योजना चोपासनी जागीर, खसरा नं. 175/74,

प्लॉट नं. १५/१६ जोधपुर, राजस्थान-३४२००१

ई-मेल आईडी : info@neelrock.com, दूरभाषः +0291-2631839

एतब् द्वारा सुचना बी जाती है कि नीलकंठ रॉक-मिनरल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सबस्यों की 36वीं वार्षिक आम

बैठक (एजीएम) एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए सोमवार, 30 सितंबर,

एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा

परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत

तरीके से भेज दी गई है। कंपनी ने 6 सितंबर, 2024 को सभी सदस्यों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने का

काम परा कर लिया है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.neelrock.com. बीएसई लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १०८ के प्रावधानों संपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ के नियम

20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और भारतीय

कंपनी रचिवालय संस्थान द्वारा जारी वार्षिक आम बैठक पर रचिवीय मानक (एसएस-२) की अनुपालना में सदस्यों

को एजीएम के नीटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम मतदान स्थल के अलावा अन्य स्थान से सेंट्रल

डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान किये गये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट

ई-वोटिंग'') मतबान देने की सुविघा प्रदान की गई है, 23 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक

रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए हकदार होंगे, एजीएम स्थल

पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग

के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट कर सकेंगे, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है

और कट-ऑफ तारीख यानी 23 सितंबर, 2024 तक शेयर रखता है, वह हेल्पडेस्क evoting@cdslindia.com

पर अनरोध भेजकर यजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट

ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूबा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ९१ के प्रावधानों संपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, २०१४ और

भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (सचीकरण समझौता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५

के नियम 42 की अनुपालना में एतब् द्वारा सूचित किया जाता है कि सब्स्यों का रजिस्टर और कंपनी की

शेयर हस्तांतरण पुस्तकें 24.09.2024 से 30.09.2024 (दोनों दिन सिम्मिलत) तक वार्षिक आम बैठक

से अपना वोट वाले सबस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

175/74, प्लॉट नंबर 15/16 जोधपुर, राजस्थान-342001 पर आयोजित की जाएगी।

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

हुए मजबूत प्रदर्शन किया।

निवेश निर्णयों, अनुशासित जोखिम प्रबंधन और गतिशील आवंटन की हमारी यात्रा को दर्शाता है। इस रणनीति ने हमें निवेश को समय के साथ फैलाने की सुविधा दी, जिससे भू-राजनीतिक जोरिव्रमों से बाजार की अस्थिरता का प्रभाव कम हुआ और हमारी एंट्री प्वाइंद्स को बेहतर बनाया गया।इस दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि हमारा फंड अपने लेबल के अनुरूप बना रहे. बाजार पूंजी आवंटन को गतिशील

रूप से समायोजित कर रहा है और बाजार की बढ़लती स्थितियों के आधार पर रणनीतिक रूप से क्षेत्रों का चयन कर रहा है।' निमेश चंदन, सी. आई. ओ., बजाज फिनसर्व ए. एम. सी. ने बेहतर प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, 'बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड प्रौद्योगिकी, नियामक, स्थिरता, जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में भारत के

A.K. SPINTEX LIMITED

Regd. Office: 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya-Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.) Ph: 9887049006, 9929139002 . Email: akspintex@gmail.com . Website: www.akspintex.com

NOTICE OF AGM AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday 30th September, 2024 at the Registered office of the Company at 14 K.M. Stone, Chittor Road, Biliya Kalan, Bhilwara 311001at 11:00 A.M. to transact the Businesses, as

set out in the Notice of AGM: Electronic copies of the notice of the AGM and Annual Report for the year 2023-24 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.akspintex.com

Physical copies of the same have also been sent to all other members at their registered address Members please note that:

Particulars

नीलकंठ रॉक-मिनरल्स लिमिटेड

प्रबंध निदेशक

Members holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2024 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of AGM through remote-electronic voting system on Central Depository Service Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("Remote E-voting). All the members are informed that: . The remote e-voting shall commence on 27th Sept., 2024 at 10:00 A.M. [IST] and shall end on 29th Sept., 2024 at 5:00 P.M. [IST]

. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the loginid and password by sending an e-mail to akspintex@gmail.com or

helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No./DP ID and client ID No. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting there existing user-id and password can be used for casting your vote.

a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently:

b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d] A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper; II. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "NOTES" in notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the FAQs for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact:

17th Floor, P.J. Towers, Dalal Street,

	Fort, Mumbei 400001	Chittor Road, Biliya Kalan, Bhilwara-311001 (Raj.)
Name & Designation	Bhawendra Jha, Dy. Manager	Ashish Kumar Bagrecha CS & Compliance Officer
Tel.	022-22723333	01482-249002
E-mail id	helpdesk.evoting@cdslindia.com	akspintex@gmail.com

Ashish Kumar Banrecha (Company Secretary & Compliance Officer) Date: 06" Sept., 2024

मेगाटेंड-संचालित अवसरों का ढोहन करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है। इसका विविध पोर्टफोलियो प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है।

ग्रुणवत्तापूर्ण कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाने पर जोर दिया गया है जिनके पास विकास के लिए मजबूत गुंजाइश है।'

ढाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड

दूरभाष संख्या : 0141-4057171, ई-मेल: cs@polywood.org, वेबसाइट: www.polywood.org

सीआईएन: L29305RJ1992PLC007003 बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग एवं पुस्तक बंद करने की सूचना

रतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की बत्तीसवीं (32वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधन ('ओएवीएम') सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ('एमसीए सर्कुलर') सामान्य परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020 क्रमांक 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 क्रमांक 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 क्रमांक 22/2020 दिनांक 15 जन 2020 क्रमांक 33/ 2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, क्रमांक 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020, क्रमांक 10/2021 दिनांक 23 जन 2021, क्रमांक 20/2021 दिनांक 08 दिसम्बर 2021, क्रमांव 03/2022 दिनांक 05 मई 2022, ('एमसीए परिपत्र') और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या ('सेबी परिपत्र') सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआईआर/२०२३/१६७ ढिनांक ०७ अक्टबर 2023, सेबी/ एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023, परिपत्र क्रमांव सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ, सीएफडी/ सीएमडी२/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी. 2021 सेबी/एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/ पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 ('सेबी परिपत्र'), के अनुसार लागू प्रावधान के प्रनुपालन में बिना एक सामान्य स्थान पर सबस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गर्ड है।

32वीं एजीएम के बोटिस की डलेक्टॉबिक पतियां. वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उन सभी सबस्यों को भेज दिया गया है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 06 सितंबर 2024 को पूरा हो चुका है। उपरोक्त दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट यानी www.polywood.org, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.bseindia और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज

इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ९१ और उसके तहत लागू नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें सोमवार, 23 सितंबर 2024 से शनिवार, 28 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सिम्मिलत) तक अंतिम लाभांश और वार्षिक आम बैठक के भुगतान के लिए बंद रहेंगी। बोर्ड द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है. तो उन शेयरधारकों को भगतान किया जाएगा जिनका नाम शनिवार. 21 सितंबर

2024 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सबस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में बर्ज है। सीधे बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी के साथ अपने बैंक विवरण और केवाईसी को अपडेट करें, जहां शेयर डीमटेरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन

में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविध प्रवान करने के लिए सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (डीडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग को उक्त तिथि और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 21 सितंबर, 2024 है। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस के नोट नंबर 26 में

में, कंपनी अपने सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश कर रही है, जिससे वे कंपनी की एजीएम

जिन सबस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति जिसने शेयर हासिल कर लिए हैं और एजीएम की सूचना भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि से पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, वह एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम की तिथि पर डलेक्टॉनिक रूप से यानी रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा अपने वोट का प्रयोग करने का

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) को संबोधित किया जा सकता है या कंपनी के कंपनी सचिव श्री स्पर्श जैन से B-9D(1), मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर 302017 राज. दूरभाष 0141-4057171 और ईमेल cs@polywood.org पर संपर्क करें।

सीएस मनीष संचेती, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, (एफसीएस 7972, सीपी 8997) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के परिणाम सोमवार. 30 सितंबर 2024 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। सबस्यों की जानकारी के लिए. स्क्रटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.polywood.org और सीडीएसएल की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड को सूचित किया जाएगा जहां कंपनी क[े] शेयर सूचीबद्ध हैं।

ढाबरिया पॉलीवुड लिमिटेड के लिए

स्पर्श जैन कंपनी सचिव सबस्यता संख्या - ३६३८३



एरिप्रद स्टोन्स लिमिटेड

(पूर्व में 'एरिप्रट स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड' के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालयः - एसपी १, उद्योग विहार, सुखेर औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर, राजस्थान-313004 सीआईएन: U74999RJ2016PLC056284, वेबसाइट: www.espritstones.com, फोन: 9116652582, ईमेल: legal@espritst

के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगी।

08वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना

न्द् द्वारा सूचित किया जाता है कि एस्प्रिट स्टॉन्स लिमिटेड (पूर्व में एस्प्रिट स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली) (कंपनी) के शेयरधारकों की र्यी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) जो कि वीडियो कॉन्क्रेंसिंम/अन्य ऑडियो-विजुअल साधन 'बीसी/ओएबीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में बताए अनुसार कारोबार किया जा सके। बैठक का स्थान कंपनी क

एजीएम का आयोजन कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों (अधिनियम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी (सूचीबद्धत दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में किया जाएगा, साथ ही कार्पोस्ट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सभी लागू परिपत्रों के साथ पढ़ा जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। समय-समय पर एमसीए और संबी के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में जारी, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट शुक्रवार 0

सितंबर 2024 को इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से उन सभी शैयरधारकों को भेज दी गई है. जिनके ई-मेल पत्ते कंपनी/लिंकटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेः (आरटीए) / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं।

वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित पर भी उपलब्ध है:

काफी कम कर सकते हैं और

बी) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के संबंधित अनुभाग यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिगिटेड ('एनएसई') www.nseindia.com पर और अपने व्यवसाय के अन्य महत्वपूर्ण आरटीए की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ पर क्षेत्रों में संसाधनों को आवंटित कर

रजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज एजीएम की सूचना के बिंदु संख्या 9 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे । कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 20 के साथ अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, और भारती कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सेबी लिस्टिंग विनियमन और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के बिनियमन 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों क इलेक्ट्रांनिक माध्यम से एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने एजीएम से पहले एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से (रिमोट ई-बोटिंग) और एजीएम के दौरान (एजीएम में ई-बोटिंग ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए आरटीए की सेवाएं ली हैं। सेबी के परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 वे

नुसार, सभी व्यक्तिगत डीमेंट खाताघारकों के लिए भी उनके डीमेंट खातों/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगि क्रेडेशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की जाएगी। एजीएम में विभिन्न तरीकों से रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग की प्रक्रिया और माध्यम एजीएम की सूचना में दिए गए हैं और यह कंपनी की वेंबसा:

www.espritstones.com पर भी उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य तथा नोटिस का हिस्सा बनने वाले प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नर्ह डालने वाले तथा अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं होने वाले सदस्य एजीएम के दौरान प्रदान की गई ई-बोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे एजीएम मैं भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने क

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितंबर, 2024 है। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी तथा रविवार 29, 2024 (शाम 5:00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी इसके बाद रिमोर्ट ई-बोर्टिंग मॉड्यूल अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी कोई भी व्यक्ति जो इस नोटिस के प्रेमण के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह नोटिस में विस्तार से बताई गई रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

मेसर्स अभिक जैन एंड एसोसिएट्स, ब्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के ब्रोपराइटर सीएस अभिक जैन को मतदान प्रक्रिया (इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा) की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जाच करने के लिए स्कूटनाईजर नियुक्त किया गया है। यदि डीमेट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को डिपाजिटरी यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधिर

कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं: एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य-

नागिन में किसी भी तकनीकी सगस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk, evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क र र्पिक कर सकते हैं या 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कील कर सकते हैं। सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभृतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य-

लागिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk. evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीढीएसएल हेल्पडेस्क से संपव अपने कामकाज में बहुत सुधार यदि शेयरधारकों /मौतिक मोड में प्रतिमृतियां रखने वाले सदस्यों /संस्थागत शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न हैं. तो वे अक्सर पर्ध जा कर सकते हैं। बैंकों, खाता वाले प्रश्न ('एफएवयू') और https://instavote.linkintime.co.in. पर उपलब्ध इंस्टा बोट ई-बोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। रिमोट ई-बोटिंग से संबंधिर किसी भी शिकायत के लिए, कृपया श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष - ई-वोटिंग, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से सी 101, 247 पार्क, एल.बी एग्रीगेटर, क्रेडिट ब्यूरो और

एस, मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), पुंबई-40083 पर संपर्क करें या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल करें या दूरभाषः 022-4918 6000 पर संपर्क करें । शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार ब्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे बैठक से कम से कम 3 (तीन) दिन पहले यानी सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर ई-मेल आईडी मोबाइल नंबर legal@espritstones.com पर मेजकर खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत क

केवल वे शेयरधारक जिन्होंने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दोरान अपने विचार व्यक्त करने /प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट सदस्यों द्वारा लिंक इनटाइम की इंस्टामीट वेबसाइट https://instameet.linkintime.co.in पर लॉग इन करवं एजीएम की सूचना के बिंदु संख्या 12 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार देखा जा सकता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग कं

मध्यम से वोट डालने का तरीका और एजीएम में मतदान करें। एजीएम का परिणाम मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2024 तक घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.esprilstones.com, आरटीए की वेबसाइ

ittps://instavote.linkintime.co.in/ पर स्कूटिनाइजर्स रिपोर्ट के साथ रखा जाएगा और एनएसई को सूचित किया जाएगा । कृते एस्प्रिट स्टोन्स लिमिटेड

हस्ता /- अंजली पाण्डे कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी M. No. A45660 SHASHWAT FURNISHING SOLUTIONS LIMITED

Central Depository Services (India) Ltd. A.K. SPINTEX LIMITED

CIN: U20299RJ2021PLC073899 Regd. Office: 121, Mahaveer Nagar, Jain Colony, Jodhpur - 342001, Rajasthan, India E-mail: cs@handicraftsvillage.com, Website: www.handicraftsvillage.com, Tel. No.: + 91-900126900

NOTICE OF 04TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE **E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE** Notice is hereby given that, The 04TH Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will

be held on Monday, September 30, 2024, at 11:00 A.M. at factory premises situated at Plot No. 120, 121, 122, Khasra No. 277/1 Salawas Industrial Area, Jodhpur, Rajasthan-342013, India to transact the business as set out in the Notice of the AGM

The Notice of AGM and Annual Report for the Fiscal 2024 have been emailed on September 05, 2024, to those members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.handicraftsvillage.com.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing facility to its member holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off-date September 20, 2024, for casting their vote on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:

The business as set forth in the Notice of the 04th AGM may be transacted through voting by electronic means;

The remote e-voting shall commence on September 27, 2024 (9.00 a.m. IST); The remote e-voting shall end on September 29, 2024 (5.00 p.m. IST);

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 20, 2024;

Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e September 20. 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NDSL for evoting, then the existing user ID and password/PIN can be utilized for casting the

Members may note that: a) the remote e-voting module shalf be disabled by NSDL beyond 5.00 p.m. IST on September 29, 2024, and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and c) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 20, 2024, only, shall be entitled to avail the facility of remote

e-voting. The Notice of AGM and Annual Report for the Fiscal 2024 is available on the Company's website at www.handicraftsvillage.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Members who have not received the Notice and Annual Report for the Fiscal 2024 may download the same from the aforesaid website

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.com

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Monday, September 30, 2024 (both days will be inclusive).

Date: September 06, 2024

Place: Jodhpur

For Shashwat Furnishing Solutions Limited Company Secretary & Compliance Officer

सोनी मेडिकेयर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 38, कानोता बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,

जयपुर राजस्थान ३०२००४, दूरभाष नं.: ०१४१-५१६३७०० वेबसाईट: www.sonihospitals.com, ई-मेल: cs@sonihospitals.com

36वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और

बुक क्लोजर की सूचना

एतब्रद्वारा सूचना दी जाती है कि सोनी मेडिकेयर लिमिटेड (' कंपनी') के सबस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक ६एजीएम८ सोमवार, ३० सितंबर, २०२४ को दोपहर ०३:०० बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 38, कनोटा बाग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर RJ 302004 IN पर आयोजित की जाएगी।

संबंधित सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट आदि कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनका नाम 30 अगस्त, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है और जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sonihospitals.com पर और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्यों द्वारा ईमेल पतों को पंजीकृत/ अपडेट करने का तरीका नीचे दिया गया है:

यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा cs@sonihospitals.com पर प्रदान करें

यदि शेयर डीमेंट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) cs@sonihospitals.com पर प्रदान करें।

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे IST से शुरू होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। कंपनी के सदस्य, कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका नीचे दिया गया है:

एजीएम के नोटिस में डीमैटरियलाइज्ड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और अपने ईमेल पते को पंजीकृत नहीं करने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से ('रिमोट ई-वोटिंग') मतदान का तरीका प्रदान किया गया है। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.sonihospitals.com पर भी उपलब्ध होगा

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेशियल सबस्यों को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों को ईमेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी टिंसिपेंद्स के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल उत्पन्न कर सकते हैं।

उक्त एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

> बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते सोनी मेडिकेयर लिमिटेड

स्थानः जयपुर तिथि: 06-09-2024

हस्ता/-जूही गुरनानी कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी